



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 8, 2004/अग्राहायण 17, 1926

No. 285]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 8, 2004/AGRAHAYANA 17, 1926

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड)

संकल्प

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2004

संख्या यू-23013/11/04-एल. डब्ल्यू.—ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्वारा भारतीय तेल निगम, असम के लुमडिंग ट्रांशिपमेंट टर्मिनल के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम प्रणाली के उत्पादन के प्रश्न पर विचार के लिए एक समिति का गठन करती है।

2. समिति का संघटन और इसके विचारार्थ विषय निम्नांकित होंगे :—

(1) श्री यू.एम. शंकर दास,

सदस्य

सचिव, भारतीय राष्ट्रीय खान श्रमिक परिसंघ,
प्लॉट संख्या 403, हार्मनी अपार्टमेंट; ऑफिसर्स कॉलोनी,
पो.ओ. आर. के. पुरम, सिकन्दाबाद-5000556.

(2) श्री बी. मजूमदार

सदस्य

संयुक्त निदेशक, स्थापना (एल एल)
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
रेल भवन, नई दिल्ली-110001.

(3) क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय)

सदस्य-संयोजक

गुवाहटी

3. प्रस्तावित समिति का विचारार्थ विषय निम्नांकित होगा :—

“भारतीय तेल निगम के लुमडिंग ट्रांशिप टर्मिनल के प्रतिष्ठान में टैंक वैगनों, पर पेट्रोलियम उत्पादों को लादने और उतारने, जिसमें होज पाइपों को जोड़ना और अलग करना, ढोली पाइपों को फिट करने के लिए टैंक के फलैंग वैगन को लगाना; वैगनों के मैनहोल कवर को खोलना/बंद करना, पंपिंग प्रचालन, तेल पंपों पर तेल वाल्वों को बंद करना और खोलना, टैंक वैगनों और लेबेल फिक्सिंग आदि को सीलबंद/सील रहित करना शामिल है, के कार्य में ठेका श्रम पद्धति के कार्यकरण का अध्ययन करना और ठेका श्रम (विनियमन तथा उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में उपयुक्त सिफारिशें करना कि उक्त प्रतिष्ठान के उक्त जॉबों/कार्यों में ठेका श्रमिकों के नियोजन को निषिद्ध किया जाए या नहीं”।

4. समिति का मुख्यालय गुवाहटी में होगा। समिति अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगी।

टी.ए. श्रीनिवासन, सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**(Central Advisory Contract Labour Board)****RESOLUTION**

New Delhi, the 8th December, 2004

No. U-23013/11/04-LW.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the question of abolition of contract labour system in the establishment of the Lumding Transshipment Terminal of Indian Oil Corporation, Assam.

2. The composition of the Committee and its terms of reference will be as under :—

- | | |
|---|-----------------|
| (1) Shri U.M. Sankar Das,
Secretary, Indian National Mine Workers' Federation,
Plot No. 403, Harmony Apartments, Officers Colony,
P. O. R. K. Puram, Secunderabad-5000556. | Member |
| (2) Shri B. Majumdar,
Joint Director, Estt. (LL)
Ministry of Railways (Railway Board),
Rail Bhavan, New Delhi-110001 | Member |
| (3) The Regional Labour Commissioner (Central),
Guwahati. | Member-Convener |

3. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows :—

"To study the working of contract labour system in the jobs/works of loading and unloading of petroleum products from the tank wagons involving connecting and disconnecting of hose pipes, fixing the flange of the tank, wagon for fitting loose pipes, opening/closing of the manhole cover of the wagons, pumping operation, closing and opening oil valves at oil pumps, sealing/unsealing of tank, wagons and label fixing etc. in the establishment of Lumding Transshipment Terminal of Indian Oil Corporation Assam and to make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the above jobs/works in the said establishment be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970".

4. The Headquarter of the Committee will be at Guwahati. The Committee should submit its report at the earliest.

T.A. SRINIVASAN, Secy.

संकल्प

नई दिल्ली, 08 दिसम्बर, 2004

संख्या यू-23013/02/2003-एल. डब्ल्यू.—ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्वारा निर्देश देता है कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खण्ड-1 में दिनांक 9 जून, 2003 को प्रकाशित भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड के संकल्प में निम्नलिखित संशोधन किये जाएंगे, अर्थात् :—

उक्त संकल्प में क्रम संख्या (1) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1) श्री के. एम. जौहरी,

सदस्य

सहायक महासचिव/एन.एफ. आई. आर.,

रेलवे बंगला संख्या डी-2,

पूर्वी रेलवे कॉलोनी, उत्तर-मध्य रेलवे,

मथुरा जंक्शन (उत्तर प्रदेश)।"

टी.ए. श्रीनिवासन, सचिव

RESOLUTION

New Delhi, the 8th December, 2004

No. U-23013/02/2003-LW.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby directs that the following amendments shall be made in the Resolution of the Government of India, Ministry of Labour & Employment, Central Advisory Contract Labour Board in Gazette of India, Extra-Ordinary, Part-I, Section I, dated 9th June, 2003, namely :—

In the said Resolution for Serial number (1) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

- (1) Shri K. M. Johri,
Assistant General Secretary/NFIR,
Railway Bungalow No. D-2,
East Railway Colony, North Central Railway
Mathura Junction (UP)."

Member

T.A. SRINIVASAN, Secy.